

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
13.02.2019 के
तारांकित प्रश्न सं. 152 का उत्तर

डिजिटल केन्द्र

*152. श्री एम. उदयकुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि रेलटेल रेलवे स्टेशनों को डिजिटल केन्द्रों में परिवर्तित कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि रेलटेल पूरे देश में और अधिक रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, कोयला, वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

डिजिटल केंद्र के संबंध में दिनांक 13.02.2019 को लोक सभा में श्री एम. उदयकुमार के तारांकित प्रश्न सं.152 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल) रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई सेवाएं मुहैया करा रहा है। 31 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार 755 स्टेशनों पर वाई-फाई सेवाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसे परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

एक माह के दौरान औसतन लगभग 2.9 करोड़ उपयोगकर्ता इस फ्री वाई-फाई सेवा का उपयोग कर रहे हैं और प्रति माह कन्ज़्यूम किया गया औसत डाटा 10,000 टेराबाइट (टीबी) से अधिक रहा है।

(ग) और (घ): आरसीआईएल देश में 796 अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सेवाएं मुहैया कराने की कार्रवाई कर रहा है।

डिजिटल केंद्र के संबंध में दिनांक 13.02.2019 को लोक सभा में श्री एम. उदयकुमार के तारांकित प्रश्न सं.152 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

(क) और (ख): रेलटेल द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के स्टेशनों पर वाई-फाई सेवाएं चालू की गई हैं:

स्टेशनों की श्रेणी	चालू वाई-फाई
ए1	75
ए	323
बी	35
सी	19
डी	101
ई	191
एफ	11
कुल	755
